



Paper id: 252433

Printed Page: 1 of 2  
Subject Code: BOE412

Roll No:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**BTECH**  
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**LASER SYSTEM AND APPLICATIONS**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70****Note:** Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.**SECTION A****1. Attempt all questions in brief.****02 x 7 = 14**

| Q no. | Question                                                                                                                                                              | CO | Level |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| a.    | Differentiate between spontaneous and stimulated emission.<br>स्वतः उत्सर्जन (Spontaneous Emission) और प्रेरित उत्सर्जन (Stimulated Emission) में अंतर स्पष्ट कीजिए।  | 1  | K4    |
| b.    | What is a 'metastable state'?<br>'मेटास्टेबल अवस्था (Metastable State)' क्या होती है?                                                                                 | 2  | K1    |
| c.    | Is it possible to have a two-level laser system. Explain your answer.<br>क्या दो-स्तरीय लेज़र प्रणाली (Two-Level Laser System) संभव है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। | 3  | K2    |
| d.    | What is the principle of excimer lasers?<br>एक्साइमर लेज़र (Excimer Lasers) का सिद्धांत क्या है?                                                                      | 4  | K1    |
| e.    | What is 'photolithography'?<br>'फोटोलिथोग्राफी (Photolithography)' क्या है?                                                                                           | 5  | K1    |
| f.    | Explain 'active medium'.<br>'सक्रिय माध्यम (Active Medium)' को समझाइए।                                                                                                | 1  | K2    |
| g.    | Define Q-factor in laser.<br>लेज़र में Q-गुणांक (Q-factor) को परिभाषित कीजिए।                                                                                         | 3  | K1    |

**SECTION B****2. Attempt any three of the following:****07 x 3 = 21**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| a. | Establish relation between Einstein's A and B coefficients.<br>आइंस्टीन के A और B गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए।                                                                                                                                                                      | 1 | K6 |
| b. | Explain what is population inversion and why is this necessary for laser action?<br>Describe plane parallel resonator.<br>जनसंख्या उत्क्रमण (Population Inversion) क्या होता है? यह लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्यों होता है? समतल समांतर अनुनादी (Plane Parallel Resonator) का वर्णन कीजिए। | 2 | K2 |
| c. | Most of the lasers are of four level. Why?<br>अधिकांश लेजर चार-स्तरीय (Four-Level) क्यों होते हैं?                                                                                                                                                                                          | 3 | K4 |
| d. | Describe construction and working of He-Ne Laser.<br>ही-नी (He-Ne) लेजर का निर्माण एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए।                                                                                                                                                                            | 4 | K2 |
| e. | Give a description of laser applications in material processing.<br>पदार्थ प्रसंस्करण (Material Processing) में लेजर अनुप्रयोगों का विवरण दीजिए।                                                                                                                                            | 5 | K2 |

**SECTION C****3. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| a. | Describe laser properties "directionality" and "brightness".<br>लेज़र गुण "दिशात्मकता" और "दीप्ति" का वर्णन कीजिए।                                                                                                                                                                            | 1 | K2 |
| b. | A laser beam emits light of wavelength 632.8 nm and has a power output of 5mW. How many photons are emitted per second by this laser?<br>एक लेज़र किरण 632.8 nm तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग उत्सर्जित करती है और इसका पावर आउटपुट 5 mW है। यह लेज़र प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित करता है? | 1 | K3 |



Paper id: 252433

Printed Page: 2 of 2  
Subject Code: BOE412

Roll No:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**BTECH**  
**(SEM IV) THEORY EXAMINATION 2024-25**  
**LASER SYSTEM AND APPLICATIONS**

**TIME: 3 HRS****M.MARKS: 70****4. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| a. | Evaluate minimum pump power to maintain population inversion in three level laser system.<br>तीन-स्तरीय लेज़र प्रणाली में जनसंख्या उत्क्रमण बनाए रखने हेतु न्यूनतम पंप शक्ति का मूल्यांकन कीजिए।                                                                                                                                                                                                                                      | 2 | K5 |
| b. | The half width of the gain profile of a laser material is about $2 \times 10^{-8} \text{ nm}$ . What should be the maximum length of the cavity in order to have a single longitudinal mode oscillation?<br>किसी लेज़र पदार्थ की गेन प्रोफ़ाइल की आधी चौड़ाई लगभग $2 \times 10^{-8} \text{ nm}$ है। एकल अनुदैर्घ्य मोड दोलन (single longitudinal mode oscillation) प्राप्त करने के लिए गुहा (cavity) की अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए? | 2 | K3 |

**5. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

|    |                                                                                                                                               |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| a. | What are CW lasers? How are they different from pulsed lasers?<br>सीडब्ल्यू (CW) लेज़र क्या होते हैं? ये पल्स लेज़रों से कैसे भिन्न होते हैं? | 3 | K1 |
| b. | Discuss techniques of mode locking for short pulse generation.<br>संक्षिप्त पल्स जनन हेतु मोड लॉकिंग तकनीकों पर चर्चा कीजिए।                  | 3 | K4 |

**6. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

|    |                                                                                                                  |   |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| a. | Explain construction and working of $\text{CO}_2$ laser.<br>$\text{CO}_2$ लेज़र का निर्माण एवं कार्यविधि समझाइए। | 4 | K2 |
| b. | Describe Nd:YAG laser with an energy level diagram.<br>ऊर्जा स्तर चित्र सहित Nd:YAG लेज़र का वर्णन कीजिए।        | 4 | K2 |

**7. Attempt any one part of the following:****07 x 1 = 07**

|    |                                                                                                                                   |   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| a. | What is LIDAR? Discuss its major components and applications.<br>LIDAR क्या है? इसके प्रमुख घटकों एवं अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए। | 5 | K4 |
| b. | Illustrate laser application in holography.<br>लेज़र के होलोग्राफी में अनुप्रयोग को चित्र सहित स्पष्ट कीजिए।                      | 5 | K3 |